



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1946 (श10)

(सं0 पटना 110) पटना, मंगलवार, 11 फरवरी 2025

सं0 3ए-2-वे०पु०-02/2022-1513—वि०

वित्त विभाग

संकल्प

11 फरवरी 2025

विषय:— बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति के संबंध में।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या-3798, दिनांक-13/09/2024 के द्वारा "बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024" अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के द्वारा बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के अन्तर्गत मूलकोटि सहित तीन-स्तरीय पदसोपान विहित किया गया है, जो निम्नवत् है:—

क्र०सं०	पदनाम	कोटि/पदसोपान	प्रास्थिति
1	उत्पाद रसायन परीक्षक	मूलकोटि	अराजपत्रित
2	वरीय उत्पाद रसायन परीक्षक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
3	मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

2. दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से उक्त संवर्ग के मूलकोटीय पद के लिए वेतनस्तर-6 स्वीकृत है। पूर्व से उक्त संवर्ग के प्रोन्नति सोपान विहित नहीं रहने के कारण प्रोन्नति सोपानों का वेतनसंरचना स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए निम्नवत् वेतनसंरचना की स्वीकृत दी जाती है:—

क्र०सं०	पदनाम	कोटि/पदसोपान	वेतनस्तर
1	वरीय उत्पाद रसायन परीक्षक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	Level-7
2	मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	Level-8

4. उक्त वेतनसंरचना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
आनन्द किशोर,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 110-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>